

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 2019/माघ 20, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 731
No. 27]	DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 2019/MAGHA 20, 1940	[N.C.T.D. No. 731

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

सं0फा0एफ0 1/1118/2018/टीई/एडी139.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना एस ओ 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 10 नवम्बर, 1998 को अधिसूचित अधिसूचना सं0 फा0 5/511/90/टी ई/ए डी /15433 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण की गई या किए जाने के लिए हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत व्याख्याता, (इंटीरियर डिजाइन/डेकोरेशन)के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को व्याख्याता, (इंटीरियर डिजाइन/ डेकोरेशन) के पद हेतु भर्ती नियम, 2019 कहा जायेगा।
(ii) ये भासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन समूह भौक्षिक ग्रेड एवं संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा तथा अन्य योग्यताएं :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :— ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

भारत यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विधि आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	पर्यवेक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती हों तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
व्याख्याता (इंटीरियर डिजाइन/ डेकोरेशन)	07* (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड-3, 15600-39100/- रुपये प्लस भौक्षणिक ग्रेड पे 5400/- रुपये	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल-नीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	योग्यता किसी मान्यता प्राप्त वि. विद्यालय से इंटीरियर डिजाइन / वास्तुकला (इंटीरियर डिजाइन)/ प्रारूप (इंटीरियर डिजाइन) में स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि। यदि श्रेणी / डिविजन नहीं दी गई है तो जोड़ में कम से कम 80 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी / डिविजन के समकक्ष माना जाएगा। यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संबंधित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। ग्रेड पाइंट अंकों का प्रतिफल 6.25 55 प्रतिशत 6.75 60 प्रतिशत 7.25 65 प्रतिशत 7.75 70 प्रतिशत 8.25 75 प्रतिशत टीप-1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में	लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी अवधि के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से भरा जा सकता है। क. (1) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित भौक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित	लागू नहीं	क. वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासक सचिव - सदस्य 3. निदेशक, प्रशासन एवं तकनीकी विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

						कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजाति तयों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।			किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रजनीश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2019

F.No. F.1/1118/2018/TE/AD/139.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification Number S. O. 3532 dated the 24th September 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Lecturer Interior Decoration notified vide notification No. F5/51/90/TE/AD/15433 dated the 10th November, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to frame/amend the following recruitment rules, regarding the method of recruitment to the post of Lecturer, Interior Design/Decoration under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- Short title and commencement:** - (i) These rules may be called the Lecturer, Interior Design/Decoration Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Scale of pay:** - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- Method of Recruitment, Age limit and other qualification:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications:** No person,
 - Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
 - Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax: - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these Rules with respect to any class or category of person.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled castes and scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts.	Classification.	Scale of pay	Whether selection on or non-selection on post.	Age limit for Direct recruits.	Educational and Other qualification required for direct recruits.	Whether age or educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lecturer Interior Design/Decoration.	7* (2019) *subject To variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' (Gazette d), Non - Ministerial.	Pay Band -3, Rs. 15,600-39,100 Plus Academic Grade Pay Rs. 5400 /-.	Not applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants Upto five years' in accordance with the instructions/ order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as prescribed by Union Public Service Commission.	Qualification: Bachelor's Degree in Interior Design/Bachelor of Architecture in Interior Design of Design in Interior Design with first class or equivalent from a recognized University/Institute. If a candidate has a Master's Degree, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline. If a class/division is not awarded, a minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to 1 st class/division. If a Grade point system is adopted, the CGPA will be converted to equivalent marks as below:- Grande point Equivalent Percentage of marks 6.25 55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 70% 8.25 75% Note 1: Qualifications are relaxable at the	Not applicable.	One year.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column No. 7. (Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not	Not applicable.	Group "A" Departmental Confirmation Committee: 1. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the concerned Department - Member 3. Director, Department of Training and Technical Education - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

					<p>discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

By Order and in the name of
the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi.

RAJANISH SINGH, Jt. Director/Jt. Secy.